

मुद्रास्फीति और इससे संबंधित पद

मुद्रास्फीति और इससे संबंधित पद

मुद्रास्फीति

- वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों में वृद्धि; क्रय शक्ति में तदनुसार गिरावट

■ रेंगतो हुई मुद्रास्फीति (Creeping Inflation): हल्की/मध्यम मुद्रास्फीति जहाँ मूल्य स्तर, एक निश्चित अवधि में लगातार कम दर (एकल अंकीय मुद्रास्फीति दर) पर बढ़ता है।

■ गदरी हुई मुद्रास्फीति (Galloping Inflation): यह तब होती है जब निम्न मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जाता है (मुद्रास्फीति दोहरे/तिहरे अंकों में - 20/100/200% वार्षिक)

■ अति मुद्रास्फीति (Hyperinflation): कोपवें सालाना भिलियन या वर्हाँ तक एक ट्रिलियन प्रतिशत तक बढ़ जाती है (1920 के दशक में जर्मनी में देखी गई)

कोर मुद्रास्फीति

- वस्तुओं/सेवाओं की कीमत में परिवर्तन लेकिन खाद्य/ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़कर (कीमतों में आंशिकता के कारण)

हेडलाइन मुद्रास्फीति

- टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन (खाद्य और ऊर्जा सहित)

$$\text{कोर} = \text{हेडलाइन} - \text{खाद्य एवं ईंधन सामग्री}$$

स्टैगफ्लेशन

- जब मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और अर्थिक स्थिरता, मंदी एक साथ होती है, इस प्रकार की मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना सबसे कठिन होता है

■ 1970 के दशक (अमेरिका, ब्रिटेन) में विकरित देशों द्वारा इस रिश्ते का सामना किया गया जब विश्व में लेन की कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ी

अपस्फीति

- मुद्रास्फीति का प्रतिलोम - वस्तुओं/सेवाओं की कीमत में निरंतर गिरावट

■ वहाँ, वार्षिक मुद्रास्फीति दर 0% से नीचे गिर जाती है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होती है (जापान को 1990 के दशक में लगभग एक दशक तक इसका सामना करना पड़ा)

■ यह मंदी/अवसाद में तब्दील हो सकता है, इसलिए यह मुद्रास्फीति से भी अधिक खतरनाक है

अवस्फीति

- जब मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है
- इसका लायर्पर्ट यह है कि कोपते प्रत्येक महीने के साथ धीमी गति से बढ़ रही है (मुद्रास्फीति हो रही है)

अपस्फीति कीमतों में गिरावट है, जबकि अवस्फीति मुद्रास्फीति दर में गिरावट है



मुद्रा संस्कीति

- आमतौर पर अपस्फीति का अनुसरण होता है
- नीति नियांत मुद्रास्फीति (अधिक सरकारी खर्च, कम व्याज दरें आदि) उपर्युक्त के आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं।

स्क्रूप्लेशन

- इस रिश्ते में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की विषमता देखने को मिलती है; कुछ क्षेत्रों को भारी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की अनुपस्थिति देखने को मिलती है और कुछ क्षेत्रों को अपस्फीति का भी सामना करना पड़ रहा है

ग्रीडफ्लेशन

- वह रिश्ते जहाँ (कॉर्पोरेट) लालच मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है; कंपनियाँ लाभ को अधिकतम करने के लिए लागत से पैसे अपनी कीमतें बढ़ाती हैं

शृंकफ्लेशन

- यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है। इसमें अवसाद ग्राहकों को निराशा/असंतोष होता है
- शृंकफ्लेशन किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की पवित्रता है।



